

CABLES Well connected KEI is under Technical Collaboration Agreement with

KEI Industries Limited

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2024-25

Date: 16.10.2024

The Manager, Listing Operation, BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half-year ended on 30th September, 2024. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 16.10.2024.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 16.10.2024.

This is for the information of the exchange and the members.

Yours truly, For KEI INDUSTRIES LIMITED

For KEI INDUSTRIES LIMITED

(Kishore Kunal) VP (Corporate Finance) & Company Secretary

(KISHORE KUNAL)

VP (Corporate Finance) & Company Secretary

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata-700001

Works-I: Bhiwadi: SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); Tel: 01493-220106/221731, E-mail: bhiwadi@kei-ind.com Works-II : Chopanki : A-280-284 RIICO Industrial Area (Chopanki) Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); E-mail: chopanki@kei-ind.com

Works-III : Silvassa : 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu-396230; Tel: +91-7359344404/7359244404; E-mail: silvassa@kei-ind.com

F-90/1-A, F Block, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi - 110020, Tel.: +91 11 6905 6800

Delhi Branch : Chennai : No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2[™] Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; Tel : 044-42009120 Offices : Kolkata :

Arihanth Benchmark, 4th Floor, 113-F, Matheshwartola Road, Kolkata-700046, Tele: 033-40620820/40620821; E-mail: kolkata@kei-ind.com
Nirvan Corporate, 7th Floor, Opposite Aghadi Nagar, Pump House, Jijamata Road, Andheri East, Mumbai-400093; Tel: 91-22-28239673/28375642 : Mumbai E-mail: mumbai@kei-ind.com

IBM acquires SaaS firm Prescinto

Bengaluru, 15 October

Wires & Cables

Tech giant IBM said it has acquired Bengaluru-headquartered Prescinto, a leading provider of asset performance management software-as-a-service (SaaS) for renewables.


Prescinto's capabilities leverage AI to enable advanced monitoring, analytics, and automation to streamline renewable energy operations and manage clean energy and storage assets. This is IBM's fourth acquisition of an renewable energy storage assets.

Indian company. IBM's last acquisition in India was in 2016, when it bought Bengalurubased Cloud-computing company Sanovi Technologies.

The acquisition of Prescinto will enhance the capabilities of IBM Maximo Application Suite, IBM's solution for asset lifecycle management. It will further IBM's leadership in the energy

and utility space, an industry undergoing significant transformation and seeking solutions to manage and optimise wind, solar, and other

KEI INDUSTRIES LIMITED



(CIN: L74899DL1992PLC051527) STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2024

(₹ in Million)								
		STANDALONE RESULTS			CONSOLIDATED RESULTS			
S N		Quarter ended 30.09.2024		Quarter ended 30.09.2023		Half Year ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023	
L		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	
1	. Total Income from Operations	22,965.73	43,749.16	19,542.31	22,965.73	43,749.16	19,542.31	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,078.70	4,106.15	1,884.24	2,078.70	4,106.15	1,884.24	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	2,078.70	4,106.15	1,884.24	2,078.70	4,106.15	1,884.24	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,548.12	3,050.61	1,402.06	1,548.12	3,050.61	1,402.06	
Ę	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,548.84	3,054.94	1,403.43	1,548.84	3,054.94	1,403.45	
6	Equity Share Capital	180.58	180.58	180.48	180.58	180.58	180.48	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	_	-	-	-	-	-	
8	Earning per share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic:	17.16	33.80	15.54	17.16	33.80	15.54	
I	2. Diluted:	17.13	33.75	15.51	17.13	33.75	15.51	
Notes:								

a. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited Quarterly and Half Yearly Financial Results The above's an extraction the earliest of minimal of standards and ordered the earliest standards and the earliest standards and the stand

For KEI Industries Limited

Particulars

Total income from operations

(before tax, exceptional and/or extraordinary items)

Net profit for the period before tax

(after exceptional and/or extraordinary items)

Net profit for the period after tax

(after exceptional and/or extraordinary items)

[comprising profit for the period (after tax) and

Other Comprehensive Income (after tax)

Equity share capital

Other Equity

Basic (₹):

Diluted (₹):

Particulars

Total comprehensive income for the period

(excluding revaluation reserve) as at March 31, 2024

LIMITED (STANDALONE INFORMATION):

Total income from operations

(Revenue from operations)

Profit before tax

Profit after tax

Earnings per equity share (Face value of ₹ 5 each)

(Revenue from operations)

Net profit for the period

Place of Signing: New Delhi Date: 15th October, 2024

Sd/-Anil Gupta n-cum-Managing Direct
DIN: 00006422

Framework for Cloud-driven Al needed: Jio exec

SURHAYAN CHAKRARORTY New Delhi, 15 October

general framework prioritising clouddriven artificial intelligence (AI) and storing data in the country will be needed to fully utilise the potential of AI in India, according to a top Reliance Jio executive.

Speaking to reporters on the sidelines of the India Mobile Congress, he said Jio envisioned AI-services expanding to all sectors with wide-ranging use cases across education, health care, and retail. "AI will change everything, not just telecom. For that AI Cloud is needed as a framework. If you do not have access to every premise, do not have storage, do not have modern features running on AI-Cloud, India will remain behind," he said.

Developed internally, Jio's AI modelling tools are aimed at connecting a variety of devices connected to Cloud. The company already holds the proprietary technology to connect these devices, according to him.

High on Cloud

JHDFC

ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

HDFC Asset Management Company Limited

CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation,

Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 6631 6333 • Fax: 022 6658 0203

E-mail: shareholders.relations@hdfcfund.com • Website: www.hdfcfund.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

887.21

858.41

858.41

576.61

576.97

106.81

26.99

26.89

Quarter Ended

(Reviewed)

887.21

858.68

576.88

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS OF HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY

1,662.45

1,610.66

1,610.66

1,180.37

1,177.41

106.81

55.28

55.07

Half year Ended

(Reviewed)

1,662.45

1,611.15

1,180.86

6,968.27



JIO'S VISION OF A DIGITAL SOCIETY

- To reduce prices, customer devices
- should have less processing power ■ Powerful edge data centres with low latency connectivity to step in
- Diverse sectors to have untapped Al use cases
- AI-driven business services to be provided to small businesses
- Device, technology, and application integration ready for this

customer-premises equipment is reduced in capacity, which cuts cost and does more than half the data processing on Cloud.

"Most in-hand or at-home devices are expensive. The processing power of such devices should be reduced. Instead, data-processing capabilities should be pushed to cloud, with the use of edge data centres, which provide lowlatency connectivity and the network should be made intelligent," he said.

He pointed to the telco's low-price internet-enabled range of JioBharat phones, which has a limited memory Jio envisions a situation where and processing power, but can Jio says.

still render 750 TV channels as a result of the cloud connection. In education AI can help students in government schools with poorer access to resources, and easily use a screen to tinker with how the lander of the Indian Space Research Organisation can be brought down on the moon.

Jio wants to provide AIdriven service to small enterprises such as automatic customer identification and messaging tools at affordable monthly subscription rates.

The huge amount of data generated as a result will be valuable commercially and should not move out of India

₹ (in Crore)

Half year Ended

(Reviewed)

1,217.62

1,159.35

1,159.35

913.93

911.88

106.74

42.82

42.81

₹ (in Crore)

Half year Ended

(Reviewed)

1,217.62

1,160.49

915.07

Quarter Ended

643.08

588.09

436.52

437.00

106.74

20.45

20.44

Quarter Ended

(Reviewed)

643.08

589.13

437.56

DGCA removes 'enhanced surveillance' on SpiceJet

DEEPAK PATEL

New Delhi, 15 October

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) on Tuesday removed SpiceJet from "enhanced surveillance" after the airline successfully raised ₹3,000 crore through a qualified institutional placement (QIP) process. The regulator will continue to conduct random spot checks of SpiceJet's operational aircraft to ensure safety.

"Spicejet was placed under enhanced surveillance by the DGCA on September 13 in view of the financial constraints being faced by the operator which could potentially affect discharge of mandatory obligations of aircraft maintenance," said the DGCA in a press release.

The DGCA carried out 266 spot checks at various locations as part of the surveillance enhanced mechanism.

"It has been ensured that deficiencies and findings found during the spot checks have been subject to suitable rectification action by the operator. In light of the same and the financial infusion of additional funds into the company, Spicejet has been taken off the enhanced regime," it noted.

carried out across the oper- to service.

SpiceJet's market share shrinks to 2%

The domestic passenger market share of low-cost airline SpiceJet has shrunktojusttwoper cent in Septemberthis year, down from 7.3 per cent in January last year, data released by the Directorate General of Civil Aviation revealed on Tuesday, Overall, the Indian carriers carried a total of 13.027 million domestic passengers, which was 6.38 percent more year-on-year. The domesticpassenger market share of IndiGo, India's largest airline, stood at 63 percent in the past month.

DEEPAK PATEL

ational fleet to ensure continuing safety of opera-tions," it clarified. On it clarified. On September 23, ten days after it was put under enhanced surveillance, the airline had raised ₹3,000 crore from global investors mutual funds through the OIP process. Business Standard reported last week that the airline has informed surveillance the regulator that it will spend ₹400 crore within the "However, random spot next 24 months to bring checks shall continue to be its 36 grounded planes back

PVR Inox to find its comeback role in Q4, says CFO

ROSHNI SHEKHAR Mumbai, 15 October

> PVR Inox, India's largest film exhibitor, is banking on the anticipated success of its lineup of multi-starrer movies, including Singham Again, Bhool Bhulaivaa 3. and Pushpa 2: The Rule (the Allu Arjun starrer will be released in five languages), to restore profitability.

"Going forward, I think with the recovery in admisons and a very strong lineup of films in the festival season half is much stronger, said and fourth quarter, we expect footfall and occupancy to financial officer, PVR Inox improve substantially, which will have a positive impact on Guild of America strike. The profitability," said Gaurav Sharma, chief financial officer of PVR Inox, in an interview with Business Standard.

The multiplex chain reported a consolidated net loss of ₹11.8 crore for the compared with a net profit of ₹166.3 crore in the same quarter last year. The company's net loss stood at ₹179 crore in the April-June quarter. The company's consolidated revenue from operations dropped by around 19 per cent to ₹1,622.1 crore, down from ₹1,999.9 crore in the same quarter last year.

"Last week, we had Vicky Vidya Ka Woh Wala Video and *Jigra* performing well at the cinemas," said Sanjeev Kumar, executive director of PVR Inox, during the earnings call. The company expects a higher number of Hollywood movies to be quarter and in 2025 compared to 2023, as last year's Hollywood releases were disrupted due to the Writers



Gaurav Sharma, chief

company also expects the return of blockbuster movies next year, according to executives in the earnings call with analysts. Earlier, the company announced that movie re-releases would become a major part of its business quarter ended September, model, which contributed roughly 6 per cent of the company's second-quarter admissions.

The company reduced its net debt by ₹140.9 crore in the last quarter, bringing its net debt to ₹1.153.1 crore at the end of September.

The success of Stree 2. which emerged as the highest-grossing Hindi film, was significant to PVR Inox's performance in the July-September quarter.

The company plans to add 110-120 screens in 2024-25 (FY25), having already added 71 screens to date. It also plans to shut down 30-35 low-performing screens in released in the ongoing H2FY25. Currently, the company's overall screen portfolio includes 1.747 screens in 356 cinemas across 111 cities in India and Sri Lanka.

Avaada Energy closes ₹597 crore refinancing for its solar projects

PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 15 October

Avaada Energy, an arm of Avaada Group, said it has approximately closed ₹597 crore (\$71.1 Million) in refinancing for its commercial and industrial (C&I) solar projects in the states of Karnataka and Maharashtra.

The refinancing was secured from Infrastructure

Limited (NIIF IFL), an infrastructure debt fund dedicated to refinancing operational infrastructure projects. Avaada's solar projects

currently supply electricity to various leading corporations in the country, including Bharti Airtel, Motherson, Bharat Forge, STT, Nxtra Data and Lumax, supporting NIIF them in their energy transi-Finance tion goals.

Notes:

- 1. The above standalone and consolidated results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on October 15, 2024. The standalone and consolidated results have been subject to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.hdfcfund.com.

Navneet Munot | MD & CEO

Place: Mumbai | Date: October 15, 2024

RPG LIFE SCIENCES An **⇔RPG** Company RPG LIFE SCIENCES LIMITED

Worli, Mumbai 400 030. CIN: L24232MH2007PLC169354; Tel: +91-22-6975 7100 E-mail: info@rpglifesciences.com; Web: www.rpglifesciences.com

POSTAL BALLOT NOTICE Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules made hereunder, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. 09/2023 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs, (herein after collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 "Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings "SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), is peing sought for the Resolution set out in the Postal Ballot Notice dated September 25, 2024 ("Postal Ballot Notice"), by means of Postal Ballot, only by way of electronic means (remote e-voting) facility provided to he members to cast their votes through electronic platform by NSDL. In view of the MCA circulars, please note that the physical copies of the Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business reply

envelopes are not being sent to Members. The notice has been sent electronically on Tuesday, October 15, 2024, the Members whose e-mail addresses are req Depository Participants/Registrar & Share Transfer Agents i.e. Link Intime ndia Private Limited (RTA), as on Friday, October 11, 2024 (Cut-off date) The Notice containing e-voting instructions is also available on the Company's website at www.rpglifesciences.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Notice may download the same from the above mentioned websites.

The voting rights of the Members/Beneficial owners (in case of shares held in demat account) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date Friday, October 11, 2024. Members holding shares either in physical or demat mode as on the cut- off date October 11, 2024 only shall be entitled to ote through remote e-voting. A person who was not a member as or the cut-off date should treat this notice for information purpose only. The Members are further informed that:

- . The Business set out in the Notice is to be transacted through e voting by electronic means only.
- . The remote e-voting begins at 09.00 a.m. (IST) on Wednesday, October 16, 2024. The remote e-voting ends at 05.00.p.m. (IST) on Thursday,
- November 14, 2024 (both days inclusive).
- The cut-off date for determining the eligibility to cast vote by electronic means is Friday, October 11, 2024. The members may note that (i) the remote e-voting module shall be disabled for voting and the voting by electronic means shall not be allowed after the date & time mentioned under point no. '3' above;
- and (ii) once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The manner of remote e-voting for Members holding shares in physical mode or demat mode or who have not registered their e-mail addresses with the Company/RTA, is provided in the Notice and
- available on the Company's website at www.rpglifesciences.com. Members are requested to cast their votes through remote e-voting process not later than 05.00.p.m. (IST) on Thursday, November 14 2024 failing which it will be strictly considered that no vote has been received from the concerned Member.

. Manner of registering/updating e-mail address:

- i. Shareholders holding equity shares of the Company in physical mode and who have not registered their e-mail IDs may get their e mail IDs registered with the Company's RTA by submitting Form ISR 1 duly filled and signed as per the specimen signatures registered with the Company alongwith self attested ID proof and address proof. The ISR-1 form can be downloaded from the RTA's website
- https://linkintime.co.in/->Resources->Downloads->Format of KYC ii. The Members holding shares in demat mode are requested to register their e-mail IDs with respective Depository Participants by following the procedure prescribed by the concerned Depository Participant The results of the Postal Ballot conducted through remote e-voting
- process along with the Scrutinizers' report shall be announced on or before Saturday, November 16, 2024 at the Registered Office of the mpany at RPG House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030. The results along with the scrutinizers report shall also be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the equity shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company's website www.rpglifesciences.com as well as on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions

(FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL or Ms. Snehal Bhame, Assistant Manager a evoting@nsdl.co.in. The last date for e-voting is Thursday, November 14, 2024 shall b

emed to be the effective date of passing resolutions as per SS-2. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Postal Ballot Notice and in particular, the manner of casting vote For RPG Life Sciences Limited

Rajesh Shirambekar Place: Mumbai Head - Legal & Company Secretary Date: October 15, 2024

प्रथम तल एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़ (तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्पेस आबंटित) रण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप—नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के तहत सम्मन

ऋण वसली न्यायाधिकरण चंडीगढ[ं](डीआरटी 2)

वाद सं: ओए / 676 / 2024 ईएक्सएच नंबर : 2394

प्रपत्र सं. ३ |विनियम—15 (1) (क) /16 (3) देखें

सेवा में, (1) रोडित कुमार डी/डब्ल्यू/एस/ओं — दिलबाग (रोहित कुमार पुत्र दिलबाग, 276, आंखों क अस्पताल, बोहर पार्ट 68, रोहतक, हरियाणा—124021. अन्य पता :— पत्नैट नंबर 1005, आलायस की टावर आर सेक्टर—102, गुरूग्राम, हरियाणा—122006_, रोहतक, हरियाणा—124021. अन्य पता : पत्नैट नंबर 1005, आलायस ही टावर आर. सेक्टर—102, गुरूग्राम, हरियाणा

जबिक ओए / 676 / 2024 माननीय पीठ अधिकारी / रिजिस्टार के समक्ष **28–09–2024** को पेश किया गया थ ानुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 कं एप–धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(यों) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है :— i) सम्मन की तामील वं प्रोस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए; ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3व हे तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरा राहरा करें, !!!) आप को, सम्पत्ति की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन के निराह्मण के दौरा स्वामृत आस्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक उक के तहत विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के संबंध संयावहार अथवा निपटान करने की मनाही की जाती है, iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हत सजित किया गया है तथा/अथवा मुल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथ त पुराली क्या निर्माण के दे लाग, जबन पूर्व जावरन के अरागित उन पर तिया जानकर द्वारा वानावर जन जातारा की गई सम्पत्तियों तथा आरितयों का अंतरण विकी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय ाघारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे; v) आप व्यवसाय के साधार कोर्स में प्रत्यामूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसार रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिमूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैय जराने तथा दिनांक **29–11–2024 को पर्वा. 10.30 बजे रजिस्टार** के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जात आपकी अनपस्थिति में किया जाएगा। **मेरे हस्ताक्ष** ौर इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30—09—2024 को दिया गया।

सम्मन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्ष

प्राइमनेट वेब टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बिजनेस पार्क, 25/2, शिवाजी मार्ग, दिल्ली 110015 CIN: U72200DL2017PTC310506; ईमेलः rcsoni@primenet.in

आईएनसी-26 [कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार] केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा

कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले प्राइमनेट वेब टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकत कार्यालय बिजनेस पार्क 25/2 शिवाजी मार्ग दिल्ली भारत 110015 के मामले में

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के एनसीटी" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार 30 सितम्बर, 2024 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के पुष्टीकरण की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।

कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकत है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली पता बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली 110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास नीचे उल्लेखित पते पर स्थित उनके पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें: पंजीकृत कार्यालयः बिजनेस पार्क, 25/2, शिवाजी मार्ग, दिल्ली, भारत, 110015

प्राइमनेट वेब टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड आवेदक के लिए तथा उनकी ओर से हस्ता/

निदेशक

सर्वेश कुमार शर्मा दिनांक: 15 10 2024 डीआईएनः 00048556 स्थानः दिल्ली

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत)

जब कि

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस **लिमिटेड** के नाम से जाना जाता था) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अनिल जे और शुचि कंसल** को 16.02.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLNOD00342772** की राशि रू.42,85,075.79 (रूपये बयालीस लाख पचासी हजार पचहत्तर और उनासी पैसे मात्र) और 16.02.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी । धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता के सचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के

नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.10.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है । विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.42,85,075.79 (रूपये बयालीस लाख**

पचासी हजार पचहत्तर और उनासी पैसे मात्र) 16.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान **कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के नाम से जाना जाता था) के आधीन

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

Form No. 3

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

Case No.: 0A/111/2024

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

STATE BANK OF INDIA

NIKKÍ ŠETHI

(1) NIKKI 5E I HI D/W/S/O - Yogesh Khatri Plot No. 1/12, Scheme No. 10-B, Housing Board, Near Diwan Ji Bagh, Alwar, Rajastha

SUMMONS WHEREAS, **OA/111/2024** was listed bef Hon'ble Presiding **Officer/Registrar**

11.09.2024
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to

issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 4444988.58/- (application along with

copies of documents etc. annexed). lackground accordance with sub-section (4) of section 1 of the Act, you, the defendants are directed a

or the Act, you, the defendants are unesteed a under:

(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to discloss particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrainer from dealing with or disposing of secure

from dealing with or disposing of secure assets or such other assets and propertie disclosed under serial number 3A of the

original application, pending hearing ar lisposal of the application for attachment ropperties. (iv) You shall not transfer by way ale, lease or otherwise, except in the ordina ourse of his business any of the assets ov

hich security interest is created and

other assets and properties specified

original application without the prior approv of the Tribunal. **(v)** You shall be liable

properties in the ordinary course of busines and deposit such sale proceeds in the accour maintained with the bank or financia institutions holding security interest over suc assets. You are also directed to file the writte

statement with a copy thereof furnished the applicant and to appear before Registra on 23.12.2024 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in you absence. Given under my hand and the seal of

Seal

Given under my hand and the seal of nal on this date 12.09.2024 Assistant Registrar Debts Recovery Tribunal, Jaipur

1) NIKKI SETHI D/W/S/O - Yoge

Exh. No.: 13454

First Floor, Sudharma-II, Lal Ko pping Center, Tonk Road, Jaipur

फ्लैट नं एफ-1 (एच आई जी) जिसका सपर कवर्ड एरिया 60 स्क्वेर मीटर, पहली मंजिल पर, सामने की ओर (छत के अधिकार बिना), प्लॉट नं. 5/1147, सेक्टर-5, वसंधरा, जिला गाज़ियाबाद-201005, उत्तर प्रदेश नीचे फ्रीहोल्ड भमि के आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य अधिकारों के साथ और जो निम्नानुसार परिबध्द है:-

पूर्व : 9 मीटर चौडी सड़क उत्तर : 7.5 मीटर चौडी सड़क पश्चिम : सामान्य मार्ग और फ्लैट नं. 2. दक्षिण : प्लॉट नं. 5/1148

-HDFC BANK

We understand your world

सही/ पाधिकत अधिकारी दिनांक: 14.10.2024 स्थान : गाज़ियाबाद सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) PUBLIC NOTICE

SHARMA is the absolute owner of 201, Block-C-4, situated in the Lav ipita Co-operative Group Housing Society Li own as Capital Apartment at Plot No. 3, Vasund calve Delhi (hereinafter referred to as the "ss pierty"). Ownership was acquired through nneyance Deed Dated 04.12.2001, which was du gistered with the office of Sub Registrar-VII, Dell doc no. 18322, Book 1, Vol No. 681, Page 90 to as doc no. 18322, Book 1, Vol No. 681, Page 90 to 5, on 04.12.2001 as per the Owner's BonaFide Versio he original documents for the entire built-up proper foulding the (i) original conveyance deed date J4.12.2001 executed by Delhi Development Authori navor of Shri Lokesh Sharma @ Shrl Lokesh Mohs Sharma, which was duly registered with the office Sub Register-VII, Delhi, as doc no. 18322, book 1, vo. 6.81, page 90 to 92 on 04.12.2001 & origin with the office of the properties of the properties of the work ocuments has been filed with the Deihi Police Crim ranch, vide LR, NO. 2093791/2024 date 6.09.2020.the owner has asserted that the sai opperty is free from all encumbrances an agreement self has been executed for the sale of the sai opperty to Ms. Shrufi Banswal, and the owner intend create a charge, VIZ mortgage or otherwise, on the operty for the purpose of availing a housing loan or edit facility from The State Bank Of India, Homoan Centre, Thapar House, Janpath, New Delhi. ar person(s) or financial institution claiming any right or erest or having any objection rega operty based on the aforementioned I ereby requested to contact the aforementioned S nch as well as the undersigned at the em fress ranjanjha318@gmail.com within 10 da n the date of publication of this notice. failing whic om the date of publication of this holder. failing which ys such claim shall be deemed null and void, and the le to the property shall be considered clea arketable, free from defects or encumbrances, an

मैटिवस मॉल सेक्टर-४, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)-302004

कोड : 18184. फोन : 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989 ई-मेल : sbi.18184@sbi.co.ir परिशिष्ट । 🗸 क [नियम ८(६) का परन्तुक देखें]

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस प्रतिभृत हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 के नियम 8(6), के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के

विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस । ाध्यर्थ वर्ष इन्नातामा वस्त्रत्व नार्वेक्स आम लोगों को तथा विशेष रूप से उघारकर्ता और प्रत्यामृति श्री उमराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी एर श्रीमती प्रमाती देवी पत्नि श्री उमराव नाथ जोगी को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्गित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभव लेनदार के पास गिरवी है. का कबना भारतीय स्टेट बैंक के पाधिकत अधिकारी दारा ले लिया गरा है, को "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जितनी भी उपलब्ध है" और दायित्व रहित" के आधार दिनांक 06.11.2024 को विक्रय किया जायेगा। प्रतिमृत लेनदार की बकाया राशि रूपये 41,36,528/ (अक्षरे इकतालीस लाख छतीस हजार पाँच सौ अठाईस रुपये) (दिनांक 10.10.2024 को बकाया) तथा इसव

अगों का ब्याजा एवम अन्य देय खर्चे श्री उपराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी एवं श्रीमती प्रमाती है। अगों का ब्याजा एवम अन्य देय खर्चे श्री उपराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेमनाथ जोगी एवं श्रीमती प्रमाती देप पिल श्री उपराव नाथ जोगी से सम्बंधित है। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि निम्न तालिका अनुसार होगी। अग्रिम राशि बैंक / E-bkray की वेबसाइट पर दी गई प्रक्रिया अनुसार ई-नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कराई जा संवरता है। इच्छुक बोलीदाता E-Bkray पोर्टल में ईएमडी की राशि ई—नीलामी बंद होने से पूर्व जमा कर सकते है E-Bkrav पोर्टल में भगतान की प्राप्ति और ई—नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी की अपडेट करने के बाव ही बोलीदाता को भ्री–बिंड ईएमडी का क्रेडिट दिया जाएगा। इन कार्यवाहियों को अवदान / अपडेट होने में बैकिंग प्रक्रिया के अनुसार कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की किसी भी समस्या से बचने के लिए बोली पूर्व ईएमडी राशि पर्याप्त

अचल सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित मृल्य 2. धरोहर राशि	समय	
भूमि एवं भवन जो प्लॉट न. 57, निजी खतेदारी की गौतम एन्क्लेव स्कीम, हरमाडा, बढारणा, जयपुर मे स्थित है जो श्री उमराव नाथ जोगी पुत्र श्री हेम्नाथ जोगी के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल	(1) ক. 39,00,000.00	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर	
147,08 वर्ग गज है। CERSAI ID-200014626432 चारों सीमाएं: - पूर्वः प्लॉट नं. 58, पश्चिमः प्लॉट नं. 56 उत्तरः रोड़ 30, दक्षिणः अन्य भूमि	(2) v . 3,90,000.00	04:00 बजे तक	

अन्य भार–अगर कोई. ज्ञात नहीं। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा प्रतिमूत लेनदार की वेबसाईट https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auctionnotices/sarfaesi-and-others तथा https:// E-bkray.in/e-auction-psb/home पर देखें । प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक दिनांक : 11.10.2024, स्थान : जयपुर (राज.)

कब्जा सूचन

(अचल संपत्ति हेत)

जब कि. सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस **लिफिटेट** के नाम से जाना जाता था। पाधिकत अधिकारी होने के नाते अधोदस्ताधरी ने सिक्योरियटजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सुधीर कुमार मिश्रा और सुनीता मिश्रा को 16.07.2024 की सुचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.HDHLLAJ00487575 (डीएचएफएल का पूर्व लैन कोड 00000505)की 16.07.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चकता करने का आवाहन करते हए अभियाचना सचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.16.71.357.36 (रूपये सोलह लाख दकहत्तर हजार तीन सौ सत्तावन और छत्तीस पैसे मात्र) 16.07.2024 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

संपत्ति नं. 622/ए (छत के अधिकार के बिना), तीसरी मंजिल (पीछे का भाग) पर, माप 225 स्क्वेर यार्डस में से 85 स्क्वेर यार्डस, एक बाइक पार्किंग की जगह के साथ, खसरा नं. 622/92, में से निर्मित, गली नं. 5-ए,

दिनांक : 14.10.2024

AXIS BANK LTD. स्ट्रक्वर्ड एसेट् ग्रुप. ऐक्सिस हारूस, प्लाट। –14, टॉक्प 4, 4वीं तल, संकटर 128, नीएडा (वत्तर प्रदेश)–201304, फोन: 0120–8210833

कब्जा नोटिस प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट ।√ के अनुसार **जबकि, ऐक्सिस बैंक** के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ए नुर्नार्नर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ल पुराणनाथ जार आर्रापूर्ण तथा अयान जानाचना, उठ्यट के राख्य कार आर्रापूर्ण तथा (अयान) राज्यावस्य 2002 के नियम 3, नियम 8 व नियम 9 के साथ पठित द्यारा 13(12) के तत्त्वत प्रदत्त पतिस्यां की प्रयो कर, मांग नोटिस दिनांकित **19.12.2023** जारी की थी जिसमें कर्जदार, जमानतियों, रेहनकर्ताओं औ बंधककर्ताओं अर्थात **1. मेसर्स मेक्सफ्लोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार रेहनकर्ता और बंधककर्ता** ग्रुनिट नंबर 414—415, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिर भ्रान्य **पताः** ७०३ गेटवे प्लाजा हीरानंदानी गार्डन. पवई, मुंबई–400076, महाराष्ट्र, **अन्य पताः** प्लॉट नंब प्र-154, गॉव-भगर, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, महगाँव, जिला रायगढ़-402308, महाराष्ट्र, 2. श्री मनोज सेठ (निदेशक, जमानती और बंधककती), पलैट नंबर 2054, संस्कृति अपार्टमेंट, द ग्रेर

लायलपुर सीजीएवएस लिभिटेड, प्लॉट नंबर 35, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली—110075, **3. श्रीमर्त** सीमा **सेठ पत्नी श्री मनोज सेठ (निदेशक, जमानती और बंधककता),** पलैट नंबर 2054, संस्कृति पार्टमेंट, द ग्रेट लायलपुर सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 35, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 मेसर्स ओ.बी. फ्लूरो कैम्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट जुमानती और बंघककर्ता), पलैट नंबर 2054 कृति अपार्टमेंट, द ग्रेट लायलपुर सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नंबर 35, सेक्टर—10, द्वारका दिल्ली—110075, **अन्य पता:** प्लॉट नंबर 312, सेक्टर— इकोटेक—1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सूचना में उल्लिखित दिनांक 30.11.2023 को राशि **रु. 7.12.14.261.68/- (रुपये सात करोड** जार त्राच से सूचना न जारताबार प्राचाय का प्रकार के साम मात्र), (इससे दिनांक 30.11.2023 का त्रीप साम क्रिस बारह ताख चौदह हजार दो सी इकसक और अङ्सक पैसा मात्र), (इससे दिनांक 30.11.2023 तक को व्याज जिंत ब्याज शामिल है), घटाएँ जमा यदि कोई हो, को मुगतान की तारीख तक इस पर आगे की ब्याज एवं अन्य प्रभारों सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा कर्जदार / जमानतियों / बंधककर्ताओं / रेहनकर्ता द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर कर्जदार . राजपार/ जनानात्यां व्यवस्थातात्रात्र (रुपयती होता त्यां जो स्तरी ने जरिता रही है। जनानित्यों/ बंधककर्ताओं/ रेहनकर्ता तथा जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति क 15 अक्टूबर, 2024 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार / जमानतियों / बंधककर्ताओं / रेहनकर्ता का ध्यान आकृष्ट किय

विशेष रूप से कर्जदार / जमानती / बंधककर्ता / रेहनकर्ता तथा सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन दिनांक 30.11.2023 को राशि **र. 7.12.14.261.88/— (रुपये सात करोड़ बारह लाख चौदह हजार दो सौ इकसद और अड़सट पैसा मात्र),** (इसमें दिनांक 30.11.2023 तक की उपार्जित ब्याज शामिल है), घटाएँ जमा यदि कोई हो. को भगतान की तारीख तक इस पर आगे की ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए ऐक्सिस बैंक व

अचल संपत्ति का विवरण

1. संबोधिती नं. 1 की समस्त वर्तमान और भावी चाल और चल परिसंपित्तियाँ (वाहनों के बिना) तथावति नि. गिर्म तिमस्य प्राचना जार नाम बादू जार कर नास्त्रवास्त्र (वाटन के नम्म) ट्रेट मेसर्स ओ.बी. पलूरो केम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वामित्व प्लॉट नंबर 312, सेक्टर- इकोटेक-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित औद्योगिक जमीन और फैक्टरी बिल्डिंग, माप जमीन एरिया 1000 वर्ग मीटर् के समस्त भाग व खंड। **सीमाएँ**, उत्तर-पूर्वः प्लॉट नं. 311, दक्षिण-पूर्वः 24 मीटर चौड़ा

रोड, दक्षिण—पश्चिमः प्लॉट नं. 313, उत्तर—पश्चिमः प्लॉट नं. 318—321 स्थानः गौतम बुद्ध नगर प्राधिकृत अधिकारी, (ऐक्सिस बैंक लि.)

(a) pnb Housing पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001.

दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

सही/

शाखा पता : एससीओ नं. 391, सेक्टर-29, अर्बन एस्टेट, इपको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम-122001

अविग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

, अयोहस्ताक्षरकर्ता ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में विसीय परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निमांग तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 वे 8(1) के अनुपालन में और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की बारा 19(12) के अंतर्गत प्रवर्त सक्तियों के प्रयोगान्तर्गत । व() ' के जुंचाला' ने बार आध्या के कि प्रियों) मानपाबी क्राय्य में ने पांची के बात चिटा के बारी के स्वयं कारपाब पूर्वमा / एं प्रयंक खाता के समझ अकित तिथि को निर्मत की थी / थी, जिनमें संबंधित ऋषकर्ता / ओ को प्रयंक खाता के सामझ अकितानुमार राशि का सूचना(अं) के ((अं) की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमृगतान करने को कहा गया था। कर्ता, गण साथि का प्रतिमृगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएए स्वरह्मता ऋणकर्ता / ओं को तथा जनसाधारण को सुवित किया जाता है कि अकोइस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इससे १ / यों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त चिकतयों के प्रयोगान्तर्गत, प्रयोक खाता

तीक्षयों पर, अधिवाहण कर तिया है। इस्पकर्ता / ओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में साक्यान किया जाता है कि संपत्ति / यों का लेन-देन न करें तथा संपत्ति / यों का कोई व किसी ° का लेन-देन, ऋणानुषंव के अनुसार एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर व्याज हेतु **पीएनी काउसिंग फाइनेंस लिम्टेड** के प्रभारधीन होगा। **ऋणकर्ता का व्यान, प्रतिभूत परि** के **मेपनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (क) के प्रावधानों की और आकृष्ट किया जाता है।**

ऋग खाता सं	ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	तिथि	44/4/ (18)	जाने की तिथि	वनकर्ष्ट्रस समास्त्र वा का विवरना
HOU/GUR/0818/ 568407 शा.काः गुड़गाँव	स्वर्गीय मोहन लाल खत्री के समस्त विधिक उत्तराधिकारी / नूतन खत्री / शिवम खत्री	11/07/ 2024	रु. 44,42,337.70 (रुपये चौवालीस लाख बयालिस हजार तीन सौ सैतिस तथा सत्तर पैसे मात्र) 04.07.2024 के अनुसार	10—अक्टूबर—24 साँकेतिक अधिग्रहण	अपार्टमेंट नं. बी-3,7113 के समस्त वह भाग तथा अंश जो टॉवर बी-3, ब्लॉक-9, तल सं. 11, अरावली हाईट्स ग्राम- गढ़ी अलवापुर की राजस्य संपदा में, अब सेक्टर-24 के एक भाग की संस्वना में, तहसील- धारूहेड़ा, जिला- रेववाड़ी, हरियाणा में स्थित है।
म्थान : गडगाँव दिनाँव	5 : 16-10-2024	20	23	प्राधिकत अधि	कारी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Wires & Cables

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-।, नई दिल्ली-110 020 फोन: 91-11-26818840/26818642, वेबसाइट: www.kei-ind.com, ई-मेल आईडी: cs@kei-ind.com

(सीआईएन: L74899DL1992PLC051527) 30 सितम्बर, 2024 का समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिक के स्टैंडअलोन और समेकित अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹मिलियन मे समेकित परिणाम स्टैंडअलोन परिणाम अर्द्धवार्षिक अर्द्धवार्षिक तिमाही तिमाही तिमाही तिमाही विवरण समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त समाप्त 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2023 30.09.202 30.09.2024 30.09.2023 अ-लेखापरीक्षित अ-लेखापरीक्षित अ-लेखापरीक्षि अ—लेखापरीक्षित अ—लेखापरीक्षि ı–लेखापरीक्<u>ष</u>ि 22.965.73 43.749.16 19.542.31 22.965.73 43.749.16 19.542.31 2,078.70 4,106.15 1,884.24 2,078.70 4,106.15 1,884.24 4,106.15 2.078.70 4,106.15 1.884.24 2.078.70 1.884.24

परिचालनों से कल आय शुद्ध लाभ / (हानि) की अवधि के लिए (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों से पहले# शुद्ध लाभ ∕ (हानि) कर से पहले की अवधि के लि . अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद#) शुद्ध लाभ / (हानि) कर के बाद की अवधि के ि 1.548.12 3.050.61 1.402.06 1.548.12 3.050.61 1.402.06 अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद #) कुल व्यापक आय अवधि के लिए [शामिल लाभ (हानि) अवधि के लिए (कर पश्चात्) और अन्य 1.548.84 3,054.94 1,403.43 1.548.84 3.054.94 1,403.45 यापक आय (कर पश्चात्)] इक्विटी शेयर पूँजी 180.58 180.58 180.48 180.58 180.58 180.48 संचेय (पनर्मल्यांकन संचेय को छोडकर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है) प्रति शेयर अर्जन (₹2/-प्रत्येक का) (चल रहे तथा बंद परिचालनों हेतू)– 33.80 17.16 33.80 17.13 15.51 15.51 17.13

11**८ स**: आ, उपरोक्त विवरण सेबी (सुवीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सवेन्जों में प्रस्तुत किए गए स्टैंडअलोन और समेकित तिमाही और अर्द्धवार्षिक अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिंग्त रूप है। स्टैंडअलोन और समेकित तिमाही और अर्द्धवार्षिक अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स <u>www.bseindia.com</u>, <mark>www.nseindia.com</mark> और कंपनी की वेबसाइट् अन्यतावर्षाता प्रतिमान को पूर्व प्रार्थन रहा के एक्सक्रिका का व्यवसङ्ख्य **www.keind.com** पर भी जलब है । **ब. #Ind-AS** नियमों ⁄ **AS** नियमों, जो भी लागू हो, के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में अपवाद और ⁄ या असाधारण वस्तुओं को समायोजित किया गया ।

कृते केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ताक्षर करने का स्थान: नई दिल्ली

दिनांकः 15 अक्टूबर, 2024

(अनिल गुप्ता) चेयरमैन–सह–मैनेजिंग डायरेक्टर डीआईएनः 00006422



एनपीए की तिथि-02.10.2024

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी चेन्नई 600 032, शाखा कार्यालय : 156, दूसरी मंजिल एलन सोली के ऊपर हनुमान नगर-डी, अमरपाल मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, 302021, राजस्थान, वेबसाइट : www.shriramhousing.in

SHRIRAM City

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पर्व का श्रीराम सिटी यनियन फाइनेंस लिमिटेड**) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन तथा प्रतिभति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानितयों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकिस्मक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सचित किया जा रहा है।

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (८) के प्रावधानों की ओर आकष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम तथा पता बकाया राशि प्रतिभत अस्तियों का सम्पत्ति पता ऋण संख्या JAPR1LP2109060004 प्लॉट नं. 31, स्कीम अयोध्यापुरी 08-अक्टबर-2024 नं. 01, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर . श्री करण गुप्ता पुत्र रवि गुप्ता (कर्जदार) तक रु. 41,73,403/-पता- प्लॉट नंबर 31, अयोध्यापुरी, गोपालपुरा बाई पास, राजस्थान 302018 में स्थित, (रुपये डकतालीस दुगार्पुरा, जयपुर, राजस्थान- 302019 135.66 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली लाख तिहत्तर हजार -2. श्री रवि गुप्ता पुत्र सत्य नारायण गुप्ता भूमि और भवन का समस्त भाग, चार सौ तीन मात्र) `सह−कर्जदार∕गारंटर) जिसकी सीमाएँ हैं: नियम व शर्तों के पता- प्लॉट नंबर 31, अयोध्यापुरी, गोपालपुरा बाय पास, पूर्व में: सड़क. अनसार अतिरिक्त ब्याज दुगार्पुरा, जयपुर, राजस्थान 302019 पश्चिम में: अन्य प्लॉट, व शुल्क सहित . मैसर्स गुप्ता एंटरप्राइजेज (सह-कर्जदार/गारंटर) उत्तर में: अन्य प्लॉट. प्रतिनिधि करण गुप्ता) ऋण राशि दक्षिण में: अन्य प्लॉट, पता- प्लॉट नंबर एच-102, रीको औद्योगिक क्षेत्र, ₹. 45.00.000/-मानसरोवर, जयपुर राजस्थान- 302020 (रुपये पैंतालीस लाख

मांग सचना की तिथि : 09.10.2024 उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मात्र)

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमित के बिना इस सचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभुत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। स्थान : जयपर

ह./- अधिकृत प्राधिकारी दिनांक : 16.10.2024 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

करके 14.10.2024 को संपत्ति पर सांक्रेतिक आधिगन्य कर लिया है।

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

प्राधिकत अधिकारी स्थान : नई दिल्ली सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

प्तर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि राजनीतिव इल **भमिकिसान जनता पार्टी** (दल का नाम के नाम से जिस्ट्रीकत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय 2186/XD/9. इंदौरा ब्लॉक-4. कपिल नगर. नियर नारी रोड, पोस्ट- जरीपाका, नागपुर, महाराष्ट्र-140026. (पुरा पता लिखे) में स्थित है। इस दल ने लोव प्रतिनिधित्व अधिनियम. 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है. पार्टी के पदाधिकारियों के नाम/पता नीचे दिए गए हैं:

अध्यक्ष:संतोष आत्माराम मेश्राम महासचिव र टीपा हरीश समनानी कोषाध्यक्ष : किरण संतोष मेश्राम यदि किसी को भूमिकिसान जनता पार्टी (प्रस्तावित

पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपति हो तो वे अपनी आपति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल). भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

31.08.2024 से ब्याज एवं

वसली, यदि कोई हो. को

घटाकर विधिक प्रभार

Pnb punjab national bank (भारत सरकार का उपक्रम)

सर्किल सस्त्र सेंटर, सर्किल कार्यालय, द्वितीय तल, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ-160017 फोन: 0172-5065219, ई-मेल: cs8214@pnb.co.in

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

एतदद्वारा यह सचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार: श्रीमती रिष्टम भनवाला (कर्जदार), फ्लैट संख्या 26, जीएच 3, सेक्टर 5, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकला, हरियाणा-134114।

श्रीमती रश्मी भनवाला (कर्जदार), फ्लैट नंबर 502, एफ ब्लॉक, विक्रम विहार, जीएच एडब्ल्यूएचओ, सेक्टर 27, पंचकुला

श्रीमती रथमी भनवाला (कर्जदार), एशियन फील्डस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गली नंबर 10, आरपीएस सिटी, सेक्टर 88, फरीदाबाद हरियाणा-121002

श्रीमती. रश्मी भनवाला (कर्जदार), डीडीए जनता फ्लैट नंबर बी-658, प्रथम तल, पॉकेट-11, जसोला, नई दिल्ली-110034। श्रीमती रष्टमी भनवाला (कर्जदार), इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, एनएच-19, नई दिल्ली-110076। श्री बलराज सिंह पत्र श्री जो**शी राम (सह-कर्जदार).** फ्लैट नंबर 26, जीएच 3. सेक्टर 5. मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकला. हरियाणा–134114

श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री बलराज (सह-कर्जदार), फ्लैट नंबर 26, जीएच 3, सेक्टर 5, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा-134114 <mark>s. श्री विकास खीश पुत्र श्री बलराज (सह–कर्जदार</mark>), फ्लैट नंबर 26, जीएच 3, सेक्टर 5, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा–134114 ने बैंक से प्राप्त ऋण सविधा के मलधन और ब्याज की अदायगी में चक की है और ऋण को **गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए**) के रूप में वर्गीकत किया गया है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक

नोटिस के माध्यम से सुचित किया जाता है। कर्जदारों के नाम म्पति का विवरण/पवर्तित की जाने वाली रु. 39,78,012.39 तथा बूथ संख्या 63, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, 20.09.2024 30.08.2024 श्रीमती रष्टमी भनवाला (कर्जदार).

पंचकला. हरियाणा -134114 का इक्विटेबल बंधक. उप-पंजीयक कार्यालय, पंचकला में

बिक्री विलेख संख्या 2556 दिनांक 02.11.2018 के अनुसार श्री बलराज सिंह और श्री

मांग सूचना के अनुसार रकम आरक्षित मूल्य

विकास ग्वीश सह-कर्जदार) - शिक्षा ऋण।

श्रीमती संतोष देती (सह-कर्जदार)

उपरोक्त कर्जदारों मैं सह–कर्जदारों और/या उनके गारंटरों से इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भगतान करने के लिए कहा जाता है. जिसमें विफल होने पर प्रतिभृतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहते इस नोटिस की तारीख़ से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर्जदारों का ध्यान प्रतिभत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

म्थानः चंडीगढ प्राधिकत अधिकारी

दिनांक: 15.10.2024

प्रधान कार्यालयः एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई-400 013 क्षेत्रीय कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लि.; विशेष परिचालन विभाग, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ, नई दिल्ली-110002

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना तिभृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन बैंक के पास गिरवी पर रखी गई अचल सम्पत्तिय

ति विक्री के लिए ई-नीलामी किकी सूचना। एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेष रूप से कर्जदार(1)/गिरवीदाता(ऑ)/गारंटीदाता(ऑ) को सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि के स राराध्वार जेन सांवारण रूप पिरान कर केजरार())/गर्रायाता(जा)/जो हुए में हैं तहां के कि स्वाराण करान के वस्ती के हिए 'जैसे हैं जहां है, जैसे हैं जो कुछ भी हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथां जी किया विना किसी दायित्व के आघार पर 'विक्री के अधिकार के साथ नीचे उल्लिखित सरण बातों में प्रितिमूर्तिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) के अधीन जारी की गई सूचना (ऑ) के मार्फत उठाई गई मांग के अनुपालन में निम्नलिखित सम्पत्तियों पर भीतिक कब्जा कर लिया गया था तथा चूंकि बकाया राशि चुकता करने में विफल होने की वजह से अघोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की घारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शिक्त में के तहत कथित सम्पत्तियों की विक्री संवालित की जाएगी।
रकमों की वसूली का प्रस्ताव पेश करता है। वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के जरिए ई-नीलामी के माध्यम से नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों की बिक्री संवालित की जाएगी। अचल सम्पत्तियों का विवरण/खाता/रकम/ईएमडी/ईटीसी का ब्यौरा

स.	कजदार का नाम	एव गारटीदाताओ का नाम		मांग सूचना की तारीख	इएमडी बोली वृद्धि रकम	तारीख एव समय	करने की अंतिम तारीखः		
1	एचडीएफसी बैंक लि., दिल्ली	गिरवीदाता/निदेशक	मद नं. 1 : सम्पत्ति सं. 5/43	₹. 5.00.98.474.23/-	₹. 1,86,00,000/-	07,11,2024	12,11,2024		
' '	मैसर्स दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट	गारंटीदाताः	का हिस्सा, खसरा नं, 642 ग्राम	मांग सूचना की तारीखः 26-06-2023	₹, 18,60,000/-	सुबह 10.30 बजे से	को अपराह्न		
	लिमिटेड	श्री राजेन्द्र प्रकाश गोयल.	चंद्रावली शाहदरा, बड़ा बाजार,	दिनांक 26.06.2023 को बकाया साथ	₹, 1,00,000/-	पुर्वाह्न 11,30 बजे तक	4.00 बजे तक		
	खाता सं. 8883813,	श्रीमती रेखा गोयल,	शाहदरा, दिल्ली-110032	में ऋण खाता के अधीन सम्पूर्ण एवं	'' ' '				
	85726579 एवं 85726635	सुश्री निधि गोयल तथा		अंतिम भूगतान की तरीख तक आगे के	ई-नीलामी की तारीख/र	मयः 18.11.2024 को सुर	ह 10.30 बजे से		
	·	श्री विनय गोयल		ब्याज के साथ लागत एवं व्यय		र्वाहन 11.30 बजे तक			
2.	एचडीएफसी बैंक लि., दिल्ली	गिरवीदाता/निदेशक	मद नं. 2: सम्पत्ति सं सम्पत्ति नं.		₹. 70,00,000/-	07.11.2024	12.11.2024		
	मैसर्स दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट	गारंटीदाताः	IV/1225 की सम्पूर्ण दूसरी मंजिल,		₹. 7,00,000/-	पूर्वाह्न 11.30 बजे से	को अपराह्न		
	लिमिटेड	श्री राजेन्द्र प्रकाश गोयल,	पुरानी सम्पत्ति सं. 448-बी, खसरा		रु. 50,000/-	दोपहर 12.30 बजे तक	4.00 बजे तक		
	खाता सं. 8883813,	श्रीमती रेखा गोयल,	सं. 1453/642, प्लॉट नं. 41,						
	85726579 एवं 85726635	सुश्री निधि गोयल तथा	गली नं. 3 एवं 4 भोलानाथ नगर			ाम् यः 18.11.2024 को पूर	ग्रेह्न 11.30 बर्ज		
		श्री विनय गोयल	शाहदरा, दिल्ली 110032			दोपहर 12.30 बजे तक			
3.	एचडीएफसी बैंक लि., दिल्ली	गिरवीदाता/निदेशक	मद नं. 3ः सम्पत्ति सं निर्मित		₹. 54,00,000/-	07,11,2024	12,11,2024		
	मैसर्स दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट	गारंटीदाताः	सम्पत्ति नं. 360-361 के भूतल		₹. 5,40,000/-	दोपहर 12.30 बजे से	को अपराहन		
	लिमिटेड	श्री राजेन्द्र प्रकाश गोयल,	का हिस्सा, खसरा नं. 642, वार्ड		₹. 50,000/-	अपराह्न 01.30 बजे तक	4.00 बजे तक		
	खाता सं. 8883813,	श्रीमती रेखा गोयल,	नं. 81 ग्राम चंद्रावली शाहदरा,						
	85726579 एवं 85726635	सुश्री निधि गोयल तथा	अनाज मंडी, शाहदरा, दिल्ली			नमयः 18.11.2024 को दो	पहर 12.30 बजे		
		श्री विनय गोयल	110032			अपराह्न 01.30 बजे तक			
4.	3 3	गिरवीदाता/निदेशक	मद नं. 4: सम्पत्ति सं निर्मित		₹. 1,05,00,000/-	07.11.2024	12,11,2024		
	मैसर्स दुर्गा एजेंसीज प्राइवेट	गारंटीदाताः	सम्पत्ति नं. 360-361 की पहली		रु. 10,50,000/-	अपराह्न 02.30 बजे से	को अपराह्न		
	लिमिटेड	श्री राजेन्द्र प्रकाश गोयल,	मंजिल एवं दूसरी मंजिल का हिस्सा,		₹. 1,000,000/-	अपराह्न 03.30 बजे तक	4.00 बजे तक		
	खाता सं. 8883813,	श्रीमती रेखा गोयल,	खसरा नं. 642, वार्ड नं. 81 ग्राम						
	85726579 एवं 85726635	सुश्री निधि गोयल तथा	चंद्रावली शाहदरा, अनाज मंडी,		ई-नीलामी की तारीख/समयः 18.11.2024 को अपराहन 02.30 बजे				
	श्री विनय गोयल शाहदरा, दिल्ली 110032 से अपराहन 03.30 बजे तक अधिकृत अधिकृत अधिकारी का नाम/दरमाय नं./ईमेल आईडी: श्री सोमनाथ पाण्डे, मोबाइलः 9310110525, somnath.pandev1@hdfcbank.com								
		आधकृत आधकारी का नाम/दूरभ	भाष न./इमल आइडोः श्री सीमनाथ पाण	ड, माबाइलः	pandey1@hdfcban	k.com			
	नियम एवं शर्ते :								

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट <u>www.hdfcbank.com</u> तथा <u>www.bankeauctions.com</u> देखें।)

. जमा करने से पहले इस संबंध में स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

ई-नीलामी **"जैसे है जहां है, जैसे है जो है, वहां जो कछ है तथा बिना किसी टायित्व के आधार पर"** आयोजित की जाएगी। इ-नालाग जैस र क्या है, जो है जो है, यह जो कुछ है तथा बिना बिना बायर के जीवा पर इच्छुक बोलीवातागण अपने इंएमडी का विवरण तथा क्तावेज लोग इन आईडी पूर्व पासवर्ड के जिए वेब पोटेंग thtps://hdfcbank.auctiontiger.net पर अपने नाम का पंजीयन कर कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुक्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करना होगा। ईएमडी निम्नलिखित खाता : 5750000904261, खाता का नाम : **डीएफएसओ ट्रॉजिसटरी एकाउंट**, लाममोगी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि.. आईएफएससी कोड: HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अथवा एचडीएफसी बैंक लि. खाता नं. 57500000904261 के पक्ष में डिमांड डाफ्ट के जरिए ऊपर सारणी में उल्लेखित तारीख

र्पकार्यका वर्ष गार, <u>जाररायका ताला का नाम किया विका</u>र के आरह जाय त्रकार्यका वर्ष है। ते वा जारा नाम के साम के का प्रवास के का प्रकार के आपराह निया जाएगा। अधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में इस सम्पत्ति पर बैंक के रिकार्ड के अनुसार यथा प्रकट के अलावा कोई भी ऋण भार यानी संविधिक बकाया जैसे सम्पत्ति कर, सोसाइटी बकाया नहीं है। हालांकि, बैंक कोई भी

बकाया संविधिक देय/ऋणभार/नगर निगम का बकाया/विजली का बकाया, शुल्क/बकाया कर इत्यादि, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा तथा यह केता की जिम्मेदारी होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सम्यत्तियों के ऋणभार, संपत्ति के स्वत्वाधिकार के संबंध में निजी स्वतंत्र जांच करवा लेनी होगी एवं उसका निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना होगा। सम्यत्ति का निरीक्षण सिर्फ ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय पर की जा सकती है। इच्छुक बोलीदातागण जो ईएमडी जमा कर चुके एवं लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड सुजन करने, डेटा अपलोडिंग, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि के लिए सहायता चाहने वाले बोलीदाता से प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 301, गरूर पेट्रो केम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज 2, गुडगाँव, हेल्पलाइन नं : 0124-4302020/21/22/23/24, श्री मिथलेश कुमार मोवाइल: 7080804466, हेल्पलाइन ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com से सम्पर्क कर सकते हैं तथा सम्पत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी के लिए ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से कार्य दिवसों को काम के घंटे के दौरान (सुबह 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे के बीच) सम्पर्क कर सकते हैं।

सर्वोच्च बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन का विषय वस्तु है। अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम ए इन्छक बीलीदाता को नीलामी वाली सम्पत्ति के संबंध में किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/फोरम/संविधिक निकाय/सरकारी एजेंसियों के समक्ष सभी तरह के मामले/शिकायत (यदि कोई हो) का संज्ञान लेना आवश्यक है तथा बोल

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों की संवैधानिक विक्री सूचना इसे ऊपर उल्लेखित तारीख को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के संबंध में ऊपर वर्णित ऋण के कर्जदारों/ तथा गारंटीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) नियम 9(1) के अधीन सुचना के रूप में माना जाए। एतदहारा कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं को ई-नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित रकम के साथ अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक खर्चों का मुगतान करने हेतु सूचित किया जाता है, अन्यथा सम्पत्ति नीलाम/बिक्री कर दी जाएगी तथा बकाया राशि, अगर कोई हो, उसे ब्याज एवं लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि